



BANARAS BEADS LIMITED

AN EXPORT HOUSE RECOGNISED BY GOVERNMENT OF INDIA
CIN No. L01131UP1980PLC004984

AN ISO
CERTIFIED
COMPANY

Regd. & Head Office	: A-1, Industrial Estate, Varanasi - 221106 (INDIA)
Phones	: +91-542-2370161-4 (4 Lines)
Fax	: +91-542-2370165, 2370214
E-mail	: rksingh@banarasbead.com investor@bblinvestor.com
Website	: www.banarasbead.com

Manufacturers & Exporters of All kind of Beads, Fashion Jewelry and Accessories.

July 20, 2021

To,
The BSE Limited
Department of Corporate Services,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai – 400001

The National Stock Exchange Of (I) Ltd.,
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No.C/1, G-Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400 051

Sub.: Intimation under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation 2015.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015, we enclosed herewith copy of Notice of Board Meeting published in Financial Express (English) edition and in Aaj (Hindi) edition newspaper on 18.07.2021.

Kindly take the above information on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **BANARAS BEADS LIMITED**

(R.K. SINGH)
COMPANY SECRETARY
Encl. As above

IDBI BANK
(CIN: L51909MH2004GO148838)

IDBI Bank Ltd.
(CIN: L65190MH2004GO148838)
NMG Dept., 1st Flr, Videocon Tower,
E-1 Jhandewalan Extn, New Delhi-110055

SHOW CAUSE NOTICE
Borrower: Isolux Corsan India Engineering & Constructions (P) Ltd.
1st Floor, Splendor Towers Golf Course Extension Road, Sector-65 Gurugram 122018

Notice is hereby given to the persons mentioned below that the proceedings for identification of Willful Defaulters as laid down by RBI Master Circular has been initiated and the Show Cause Notice issued by IDBI Bank has been returned/ unavailed.

Name & Address	Designation	Criteria for Willful Default
Subash Poojari 2nd Flr, Block 2, Vatika Business Park, Sec. 49, Sohna Rd., Gurgaon	Directors of Isolux Corsan India Engineering & Constructions (P) Ltd.	2.2.1 (d) Diversion of funds: Transferring funds to the subsidiaries/ Group companies or other corporates. 2.2.1(d) Routing of funds through any bank other than members of consortium without prior permission of the lenders. 2.2.2: Shipping of funds. Funds borrowed from banks/ FIs are utilized for purposes unrelated to the operations of the borrower, to the detriment of the financial health of the entity or of the lenders.

The above persons, if they desire, may show cause within 15 days from the date of this notice as to why they should not be declared and reported to RBI as Willful Defaulter.

Date: 18/07/2021
Sd/- Raj Kumar Ojha - DGM (NPA Dept.)

BANARAS BEADS LIMITED (An ISO Certified Company)
(An Export House Recognized by Government of India)
Reg. & Head Office: A-1 Industrial Estate, Varanasi-221011
Ph: 0522-227018-64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, July 29, 2021 at 3:00 P.M. at the Registered Office of the company to consider and approve standalone Un-audited financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2021 and to consider other matters.

The said Notice may be accessed on the Company's website at <http://www.bsindia.com> and may also be accessed on the Stock Exchange websites at <http://www.bseindia.com> and <http://www.nseindia.com>.

By order of the Board
For Banaras Beads Limited
Sd/-
(R.K. Singh)
Company Secretary

Place: Varanasi
Date: 17/07/2021

Avanti Feeds Limited
Registered Office: Flat No. 103, Ground Floor, R. Square, Pandurangapuram, Visakhapatnam - 530 003, Andhra Pradesh.
Corporate Office: G-2, Concorde Apartments, 6-3-456, Somajiguda, Hyderabad - 500 082. Tel: 404-2331026/2912911
E-mail: avanti@avantifeeds.com Website: www.avantifeeds.com
(CIN: L16001AP1983PLC095728)

NOTICE OF 28th ANNUAL GENERAL MEETING
INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS ON THE 28th (TWENTY-EIGHTH) ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

NOTICE is hereby given that the 28th (Twenty-Eight) Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of Avanti Feeds Limited ("the Company") will be held on Saturday, the 14th August, 2021 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 read with all applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities Exchange Board of India (SEBI) in respect of business set out in the Notice of the AGM.

The Notice of the AGM and Annual Report for FY 2020-21 and other documents will be sent to the members electronically whose email addresses registered with the Company/RTA/Depository Participant(s). The Notice of the AGM and Annual Report for FY 2020-21 will also be made available on the website of the Company, www.avantifeeds.com and on the websites of the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed, i.e. BSE Limited (at www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (at www.nseindia.com) and on the website of KFin Technologies Pvt. Ltd. (at www.evoting.kfintech.com).

Participation in AGM through VC / OAVM:
Shareholders can attend and participate in the AGM through the VC / OAVM facility only which is being provided by the Company from KFin Technologies Pvt. Ltd. (the details of which will be provided by the Company in the Notice of the AGM. Shareholders attending through VC / OAVM shall be counted for the purpose of the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Manner of registering/ updating their e-mail ID:
Shareholders who have still not registered their e-mail ID are requested to get their e-mail ID registered, as follows:
1) Shareholders holding Shares in Physical Mode: Shareholders holding shares in physical mode and who have not updated their email address are requested to update their email address by writing to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company, viz. KFin Technologies Pvt. Ltd. ("KFinTech") at avanti@kfintech.com, along with the copy of the signed request letter mentioning the folio number, name and address of the Shareholder, self-attested copy of the PAN Card, and self-attested copy of any document (eg: Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Shareholder.
2) Shareholders holding Shares in Dematerialized Mode: Shareholders holding Shares in Dematerialized mode and who have not registered their email id for updation are requested to register their e-mail ID with the relevant Depository Participant(s). In case of any queries/ difficulties in registering the e-mail address, Shareholders may write to KFinTech at avanti@kfintech.com.

Manner of Voting on Resolutions passed before the AGM:
The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to its Shareholders to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). The manner of remote e-voting / e-voting at AGM for Shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Shareholders who have not registered their e-mail addresses will be provided in detail in the Notice of the AGM. The details will also be made available on the Company's website www.avantifeeds.com.

Subst. date for Dividend and Book Closure:
The Shareholders may note that the Board of Directors, at its Meeting held on June 22, 2021, has recommended a Dividend of Rs. 6.25 Pp. (Rupees Six and Twenty-Five Paise only) per equity share of Rs. 1/- each fully paid for the FY 2020-21, subject to the approval of the Shareholders at the AGM.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, August 9, 2021 to Saturday August 14, 2021 (both days inclusive) for AGM and determining the entitlement of the Shareholders to the Dividend for the Financial Year 2020-21. The Dividend, if declared, will be paid to the Shareholders whose names appear in the Register of Members of the Company as at close of business hours on Saturday, August 7, 2021 and in respect of shares held in dematerialized form, it will be paid to the Shareholders whose names are furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL), as the beneficial owners as on that date.

Manner of Payment of Dividend, if declared at the AGM:
The Dividend, if approved by the Shareholders at the AGM, will be paid electronically through various online transfer modes to those Shareholders who have updated their bank account details with the Company's Registrar and Share Transfer Agent/ Depository Participant(s). For Shareholders who have not updated their bank account details, Dividend Warrants / Demand Drafts will be sent to their registered addresses. To avoid delay in receiving dividend and to receive the dividend directly into their bank account on the payout date, Shareholders are requested to update their Bank details (e.g. name of the bank and the branch, bank account number, 9 digits MICR number, 11 digit IFSC Code and the nature of account) along with a copy of cancelled cheque with the Shareholder's name to KFinTech (RTA), in respect of shares held in physical form and to their Depository Participant in case of shares held in electronic form.

The detailed instructions regarding the above will be provided in the Notice of the AGM and Shareholders are requested to take note of the same.

The notice of the 28th Annual General Meeting will be sent to the shareholders in accordance with the applicable provisions to their email addresses with in the stipulated time line.

For AVANTI FEEDS LIMITED
Sd/- C. RAMACHANDRA RAO
JOINT MANAGING DIRECTOR,
COMPANY SECRETARY & CFO

Date: 17.07.2021
Place: Hyderabad

Mutual Funds
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund

ADITYA BIRLA CAPITAL
PREFECTURA, METRO, FINANCIAL, ADVISORY

Aditya Birla Sun Life AMC Limited (Investment Manager for Aditya Birla Sun Life Mutual Funds) Registered Office: One World Center, Tower 1, 17th Floor, Jupiter Mill Compound, Q41, 5-B, Mang. Park Extension Road, Mumbai - 400 013. Tel: 4356 8000. Fax: 4356 8110/8111. CIN: L65190MH1996PLC038811

SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY
TENDER NOTICE FOR
MANUFACTURE AND SUPPLY
e-Tender No. 13BCECT/BSRP2102,
Date: 12.07.2021.

Date: Due to be opened on 12.08.2021. Work: Manufacture and Supply of Fish plates for 60 rails to RDSO's Drg. No. T-1898. Quantity: 46,143 Nos.
Tender Value: ₹ 54,86,34,44/- (Rupees Five Crores Ninety Four Lakhs Six Thousand Three Hundred and Forty four only). Cost of Tender Documents: Rs. 500/- (Five Hundred only). Tendering time: 10:00 AM to 15:00 Hrs on date 12.08.2021.

The Complete information of above procurement Tender Notice is available over websites <http://www.mwr.rps.gov.in>, <http://www.sec.indianrailways.gov.in> Bids other than e-bids shall not be accepted against above Tenders.
By Chief Engineer/Con/TS&S
CPR/1092 S.E.C. Railway, Bilaspur

Record Date for Distribution

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Trustees of Aditya Birla Sun Life Mutual Fund have approved Friday, July 23, 2021, as the Record Date for declaration of distribution under the Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) options in the following schemes, subject to availability of distributable surplus on the Record Date:

Name of the Schemes	Plans/Options	Quantum of Distribution per unit on face value of ₹ 10/- per unit	NAV as on July 16, 2021(₹)
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund (An open ended scheme investing in arbitrage opportunities)	Direct Plan - IDCW	0.028	11.2336
Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund (An open ended dynamic asset allocation fund)	Regular Plan - IDCW	0.12	23.30
	Direct Plan - IDCW	0.13	25.27
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund (An open ended equity scheme following a value investment strategy)	Regular Plan - IDCW	1.73	31.7051
	Regular Plan - Normal IDCW		12.2413
Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series QO (A Close ended Income Scheme)	Regular Plan - Quarterly IDCW	The entire distributable surplus at the time of maturity^ shall be distributed.	10.6849
	Direct Plan - Quarterly IDCW		10.7244

The NAV of the schemes, pursuant to payout of distribution would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

#As reduced by the amount of applicable statutory levy. *or the immediately following Business Day if that day is a non-business day. ^Maturity of the said scheme is July 23, 2021.

All unitholders whose names appear in the Register of Unitholders / Beneficial owners under the IDCW options of the said schemes as at the close of business hours on the Record Date shall be eligible to receive the distribution so declared.

For Aditya Birla Sun Life AMC Limited
(Investment Manager for Aditya Birla Sun Life Mutual Fund)
Sd/-
Authorised Signatory

Date: July 17, 2021
Place: Mumbai

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

PREMIER SUGAR LLP
Regd. office: 201 DDA, Plot No. 5, Second Floor, Gupta Arcade, Mayapuri Phase 1, Delhi-110091
Email: macho_gm@lyfsooo.com
Telephone: +91-9958179995
Before the Central Government
Through the office of the Registrar of Limited Liability Partnership, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi

In the matter of Premier Sugar LLP having its registered office at 201 DDA, Plot No. 5, Second Floor, Gupta Arcade, Mayapuri Phase 1, Delhi-110091

Notice is hereby given to the general public that the Limited Liability Partnership is intended to make an application to the Central Government under Rule 13(3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its registered office from NCT of Delhi to the state of Uttar Pradesh. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of their objections supported by an affidavit stating the nature of interest and grounds of objection to the Registrar of LLP within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the LLP at its registered office at the address mentioned above.

201 DDA, Plot No. 5, Second Floor, Gupta Arcade, Mayapuri Phase 1, Delhi-110091
Through and on behalf of
Premier Sugar LLP
Sd/-
Kumar Gaurav Nishi
Date: 19/07/2021 Designated Partner
Place: Delhi DIN: 02089331

Motilal Oswal Financial Services Limited
CIN: L65190MH2005PLC153397
Regd. Office: Motilal Oswal Tower, Rahimji Salgaonkar Road, Opposite Panel S.T. Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025. Telephone: +91 22 7315 4201 / +91 22 5536 2565.
Email: shareholders@motilaloslwa.com Website: www.motilaloslwa.com

NOTICE OF THE SIXTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING HELD THROUGH ELECTRONIC MODE
Notice is hereby given that:

A) ANNUAL GENERAL MEETING:
The Sixteenth Annual General Meeting ("AGM") of the Motilal Oswal Financial Services Limited ("the Company") is scheduled on Monday, August 09, 2021 at IST 4.00 p.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder read with Circular dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with SEBI Circular dated May 12, 2020 and January 15, 2021, without the physical presence of the Members at a convened venue.

In view of the prevailing COVID-19 pandemic situation and difficulties involved in dispatching the physical copies and as permitted by MCA and SEBI, the Notice of the AGM along with Annual Report for the Financial Year 2020-21 has been sent through electronic mode (vide e-mail) only on July 17, 2021 to those Members / Beneficial Owners whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners maintained by the Depositories as on bono date i.e. Friday, July 09, 2021 and whose email addresses were registered with the Company / Depositories. The Notice and the Annual Report is also available on the website of the Company at www.motilaloslwa.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.

B) PROCEDURE FOR JOINING THE AGM THROUGH VC / OAVM:
Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC / OAVM through the e-Voting system provided by CDSL. The link for VC / OAVM will be available 15 minutes before the scheduled time of AGM in Shareholders / Members login where the EVSN of Company will be displayed. The instructions for joining the AGM and "e-voting facility" during the AGM to its Members in respect of the VC / OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

C) PROCEDURE FOR REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING / AT THE AGM:
In compliance with the provisions of the Section 108 of the Act read with the Rules made thereunder and other applicable provisions of the Act, Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") and Regulation 44 of the Listing Regulations (as amended from time to time) and as per MCA Circulars, the Company is offering "Remote e-voting facility" (e-voting from a place other than venue of the Meeting) prior to the date of AGM and "E-voting facility" during the AGM to its Members in respect of all businesses to be transacted at the AGM. For this purpose, the necessary arrangements have been made by the Company with CDSL to facilitate Remote e-voting and E-voting. The instructions for Remote e-voting and E-voting are given in the Notice of the AGM.

The Member whose name appears on the Register of Members / Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date i.e. Tuesday, August 03, 2021 will only be considered for the purpose of Remote e-voting and E-voting. Person(s) who is/are not Member as on cut-off date should treat this Notice of the AGM for information purpose only.

The Remote e-voting facility commences on Friday, August 06, 2021 at IST 9.30 a.m. and ends on Sunday, August 08, 2021 at IST 5.00 p.m. The Remote e-voting shall be disabled by CDSL after aforesaid period.

Members who are attending the AGM through VC / OAVM, can cast their vote during AGM electronically on the business specified in the notice of the AGM through the e-voting facility. However, only those Members / Shareholders, who will be present in the AGM through VC / OAVM and have not casted their vote on the Resolutions through Remote E-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through E-voting during the AGM.

In the event of any grievance relating to Remote e-voting and E-voting, the Members may contact the following:

Mr. Rakesh Dalvi, Senior Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futures, Motilal Oswal Compound, N. J. Joshi Marg, Lower Panel (East), Mumbai - 400 013.
E-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542 / 43.
The Members who have not registered their email address and holding Equity Shares in Demat form are requested to register their e-mail address with the respective Depository Participant ("DP") and the Members holding Equity Shares in physical Form may get their e-mail addresses registered with Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") of the Company, i.e. Link Intime India Private Limited by sending the request to helpdesk@linkintime.com. The Members are requested to provide details such as Name, Folio Number, Certificate number, PAN, mobile number and e-mail id, etc.

The Company has fixed Tuesday, August 03, 2021 as the "Record Date" for determining entitlement of Members for final dividend for FY 2020-21, if approved at the AGM.

The Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through Remote e-voting and E-voting during the AGM and attending the AGM through VC / OAVM.

For Motilal Oswal Financial Services Limited
Sd/-
Kaishash Purohit
Company Secretary & Compliance Officer
(ACS: 28744)

Place: Mumbai
Date: July 17, 2021

L&T Mutual Fund
6th Floor, Brindavan, Plot No. 177
C. S. T. Road, Kallina
Santacruz (East), Mumbai 400 098

call 1800 2000 400
email investor.line@lntmf.co.in
www.ltfsc.com

L&T Financial Services Mutual Fund

Notice (No. 24 of F.Y. 2021-22)

Notice for Declaration of Dividend in certain schemes of L&T Mutual Fund:

Notice is hereby given that L&T Mutual Fund Trustee Limited, the Trustees to L&T Mutual Fund ("the Fund"), have approved declaration of dividend (subject to adequacy and availability of distributable surplus) under the Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") options of the below mentioned schemes:

Name of the Scheme	Quantum of Dividend (₹ per unit)	Face Value (₹ per unit)	Net Asset Value ("NAV") as on July 16, 2021 (₹ per unit)
L&T Balanced Advantage Fund - Regular Plan - IDCW	0.10	10	18.165
L&T Balanced Advantage Fund - Direct Plan - IDCW	0.11		20.277
L&T Hybrid Equity Fund - Regular Plan - IDCW	0.13		24.65
L&T Hybrid Equity Fund - Direct Plan - IDCW	0.15		27.959
L&T Large and Midcap Fund - Regular Plan - IDCW	0.17		29.434
L&T Large and Midcap Fund - Direct Plan - IDCW	0.19		33.639
L&T Business Cycles Fund - Regular Plan - IDCW	1.00		17.496
L&T Business Cycles Fund - Direct Plan - IDCW	1.10		18.242

Pursuant to payment of dividend, NAV per unit of the IDCW options of the aforesaid schemes will fall to the extent of the payment and statutory levy (if any).

Distribution of the above dividend is subject to the availability and adequacy of distributable surplus and may be lower to the extent of distributable surplus available on the record date.

Past performance of the aforesaid scheme may or may not be sustained in future.

The record date for the purpose of declaration of dividend shall be July 23, 2021 ("the Record date"). The dividend will be paid to those unit holders, whose names appear in the register of unit holders of the aforesaid scheme as at the close of the business hours on the Record Date.

Under the dividend re-investment facility, the dividend declared will be re-invested at the ex-dividend NAV. The payment of dividend shall be subject to Tax Deducted at Source (TDS) as applicable.

Please note that in case the aforesaid Record Date falls on a non-business day, the next business day would be considered as the Record Date.

For L&T Investment Manager Limited
CIN: U65991MH1996PLC229572
(Investment Manager to L&T Mutual Fund)

Sd/-
Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

